

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

व्यवसाय साझीदारों एवं प्रतिस्पर्धियों हेतु नीति (निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक २२ फरवरी २०१३ को मीटिंग संख्या २/२०१३ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से मतभेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेगा।

विषय - सूची

आचार संहिता और विधि के बारे में जानने और उसका पालन करने की जिम्मेदारी.....	1
विज्ञापनों के प्रकाशन पर दिशानिर्देश	1
परस्पर सम्मान	2
उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता	2
कार्य दशाएं	2
व्यापार प्रक्रियाएँ	3
बौद्धिक सम्पदा	3
कंपनी से सम्बंधित और गोपनीय सूचनाओं का संरक्षण	3

व्यवसाय साझीदारों एवं प्रतिस्पर्धियों हेतु नीति

इंडोरामा वेंचर्स, इसकी सहायक कंपनियाँ व इसके सहयोगी अपने कारोबार में नैतिकता अपनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इंडोरामा वेंचर्स अपने व्यवसायिक साझीदारों के साथ व्यवसाय में उत्पाद सुरक्षा, गुणवत्ता और व्यापारिक सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को अपनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारे मूल्य और नैतिकता कानून की आवश्यक न्यूनतम सीमा से अधिक हैं क्योंकि सत्यनिष्ठा हमारी कंपनी और संस्कृति के सबसे मूल्यवान गुणों में से एक है। इंडोरामा वेंचर्स ऐसे व्यापारिक साझीदारों के साथ काम करना चाहते हैं जो निष्पक्ष, ईमानदार और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करते हैं।

जैसे हम अपने कर्मचारियों से आपके साथ व्यापारिक लेन-देन में उच्चतम नैतिक और कानूनी मानकों के अनुरूप कार्य की अपेक्षा करते हैं, वैसे ही हम अपने व्यवसायिक भागीदारों से भी नैतिक अपेक्षाओं और दायित्वों के अनुरूप हमारे साथ कार्य करने की अपेक्षा करते हैं ।

आचार संहिता और विधि के बारे में जानने और उसका पालन करने की जिम्मेदारी

हमारे व्यवसायिक भागीदारों के लिए मानकों का सारांश इस एक साधारण वाक्य से समझा जा सकता है।

"हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, विधि अनुसार और पारस्परिक सम्मान के वातावरण में व्यवसाय करते हैं ।"

हम व्यवसाय करते हैं:

- स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से
- विधि का पालन करते हुए
- जाति, रंग, लिंग, धर्म, उम्र, राष्ट्रीय मूल, या अन्य कानूनी रूप से संरक्षित स्थिति का भेद किए बिना हर किसी का सम्मान करते हुए ।

विज्ञापनों के प्रकाशन पर दिशानिर्देश

इंडोरामा वेंचर्स ने एक नीति जारी की है जो कि विज्ञापनों के ऐसे प्रकाशन को निषेध करती है जोकि किसी प्रकाशन के अधिकार जारी होने की नियत प्रक्रिया पूरी होने से पहले की गयी हो और जहाँ कोई कम्पनी या कर्मचारी; प्रकाशन के अधिकार पाने की स्पर्धा में शामिल हो ।

इंडोरामा वेंचर्स द्वारा अपनी विपणन रणनीति के तहत प्रकाशनों में विज्ञापन दिए जा सकते हैं परन्तु सिर्फ विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया के परिणाम जारी होने के बाद और वहाँ जहाँ यह उचित संदेह न पैदा होता हो कि विज्ञापन किसी कंपनी या कार्यकारी व्यक्ति को किसी प्रभाव में तो नहीं दिए जा रहे ।

- (अ) हमारा उद्देश्य हमारे आपूर्तिकर्ताओं, हितधारकों और अन्य लोगों के साथ परस्पर विश्वास, समझ और सम्मान के आधार पर मजबूत संबंधों को विकसित करना है।
- (ब) हम लेन-देन में उम्मीद करते हैं कि हमारे साझीदार व्यवसायिक सिद्धांतों का पालन करें।
- (स) इंडोरामा वेंचर्स कंपनियों अच्छी प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों और लागू नियमों के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करेंगे।

परस्पर सम्मान

इंडोरामा वेंचर्स समान अवसर और उत्पीड़नमुक्त कार्य वातावरण की नीति अपनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। व्यवसायिक साझीदार भी अपने यहाँ लोगों को नौकरी देने और रोजगार की प्रक्रियाओं में; जैसे रोजगार हेतु आवेदन, पदोन्नति, पुरस्कार, प्रशिक्षण, नौकरी के काम, वेतन, लाभ, अनुशासन, और रोजगार समाप्ति में रंग, लिंग, धर्म, उम्र, राष्ट्रीय मूल, पूर्वजों, विकलांगता, सैन्य स्थिति, या अन्य कानून द्वारा रक्षित किसी स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।

इंडोरामा वेंचर्स कार्य हेतु ऐसे वातावरण को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और स्थिति का सम्मान होता है और उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त है। इंडोरामा वेंचर्स नीति का उद्देश्य इस सन्दर्भ में लागू कानूनी सीमाओं से भी अधिक प्रदान करना है।

इंडोरामा वेंचर्स की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता हमारे उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर भरोसा करें। व्यवसायिक भागीदारों से यह अपेक्षा की जाती है वह सरकार द्वारा निर्धारित एवं अन्य सभी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरी करने वाले उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करें। उत्पाद सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को तुरंत इंडोरामा वेंचर्स को सूचित किया जाना चाहिए।

उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इंडोरामा वेंचर्स और उसके व्यापारिक भागीदार उत्पाद सामग्री और उत्पादों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करना सुनिश्चित करें। हम व्यावसायिक भागीदारों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उत्पाद सुरक्षा या गुणवत्ता के बारे में किसी भी समस्या को इंडोरामा वेंचर्स को तुरंत सूचित करें।

कार्य दशाएं

हम ऐसे व्यवसायिक साझीदार तलाशते हैं जो अपने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्य से संबंधित दुर्घटनाओं और चोटों से बचने हेतु उन्हें सुरक्षित और स्वच्छतापूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं।

हम ऐसे कारखानों के साथ अनुबंध करते हैं जोकि सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के अलावा जिम्मेवार रूप से संसाधनों का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता में शामिल होते हैं; और जो अपशिष्ट व्यवसाय साझीदारों एवं प्रतिस्पर्धियों हेतु नीति

को कम करते और समाप्त करते हैं; जो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं; जो बाजार की मांग और अतिथि वरीयता के आधार पर प्राकृतिक, जैविक और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के चयन हेतु प्रदान करते हैं; और जो पर्यावरण, समाज और व्यवसाय की जरूरतों में सामंजस्य रखने वाली सुविधाओं का विकास करते हैं ।

व्यापार प्रक्रियाएँ

इंडोरामा वेंचर्स यह अपेक्षा करते हैं कि व्यापारिक भागीदार प्रतिस्पर्धा के आंकड़ों, स्वामित्व संबंधी एवं अन्य बौद्धिक संपदा के उचित नियंत्रण में सत्यनिष्ठा और विधिवत तरीके से काम करेंगे और उचित प्रतिस्पर्धा, अविश्वास, सटीक और सच्चे विपणन के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

बौद्धिक सम्पदा

इंडोरामा के व्यापार चिन्हों (ट्रेडमार्क), सेवा चिन्हों (सर्विस मार्क), प्रतीक चिन्हों (लोगो), डिजाइन या अन्य बौद्धिक संपदा जिसमें इंडोरामा वेंचर्स ने अधिकार स्थापित किए हैं, का व्यावसायिक साझेदारों द्वारा अनधिकृत उपयोग निषिद्ध है। व्यावसायिक साझेदार कम्पनी के किसी भी कॉपीराइट संरक्षित कार्य या ट्रेडमार्क या डोमेन नाम या पेटेंट का उपयोग, पुनः उत्पन्न करना, पाना, संशोधित करना, डाउनलोड करना, वितरित करना या अन्यथा प्रतिलिपि करना इत्यादि बिना लिखित आज्ञा के नहीं कर सकते।

कंपनी से सम्बंधित और गोपनीय सूचनाओं का संरक्षण

सभी व्यावसायिक साझेदारों की यह एक जिम्मेदारी है कि वे गोपनीय व्यावसायिक सूचना की रक्षा करें और इस तरह की सूचना का प्रयोग केवल इंडोरामा वेंचर्स प्रयोजनों के लिए ही करें। गोपनीय व्यावसायिक जानकारी में असीमित कंपनी के आविष्कार, व्यापार रहस्य, व्यवसाय योजनाएं और अनुमान, बिक्री, लागत और लाभ के आंकड़े; नए उत्पाद या विपणन योजना; ग्राहक विवरण और कार्यक्रम; अनुसंधान और विकास के विचार या सूचना; विनिर्माण प्रक्रियाएँ या विधियाँ; कार्मिक सूचना; संभावित अधिग्रहण, विस्थापन और निवेश के बारे में जानकारी; और कोई कंपनी द्वारा गम्भीर माने जाने वाले मामले आते हैं ।

व्यावसायिक साझेदारों से उनकी गतिविधियों को विनियमित करने की अपेक्षा की जाती है ताकि इंडोरामा वेंचर्स को उसके व्यवसाय की जानकारी या योजनाओं के प्रकटीकरण अथवा उपयोग से उत्पन्न कोई हानि या शर्मिंदगी न झेलनी पड़े।

जिन राष्ट्रों में हमारे व्यावसायिक साझेदार काम करते हैं उन राष्ट्रों के विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक अंतरों को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। हम प्रत्येक राष्ट्र के स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए अपने मानकों में गुंजायश रखते हैं । हम सभी व्यावसायिक भागीदारों से इस दस्तावेज़ के दर्शन और अंतर्निहित सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद करते हैं।